



December 2, 2021

BSE Limited
Corporate Services Department
Phiroze Jeejeeboy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Symbol: QUINT
Scrip Code: 539515

Subject: Newspaper advertisement of Notice for Postal Ballot

Reference: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated December 1, 2021 and in terms of the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "LODR"), please find enclosed the copies of newspaper advertisements confirming dispatch of Postal Ballot notice, published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Pratah Kiran" (Hindi Newspaper) on December 2, 2021 seeking approval of members for:

Item No.	Description of the Resolutions
1.	Special Resolution to approve appointment of Ms. Abha Kapoor (DIN: 01277168) as an Independent Woman Director
2.	Special Resolution to approve making investment(s) and/ or providing loan(s) and giving guarantee(s) in excess of the limits prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013
3.	Ordinary Resolution to approve acquisition of 47.92% stake in Spunklane Media Private Limited
4.	Ordinary Resolution to approve acquisition of 100% stake of Quintillion Media Private Limited
5.	Ordinary Resolution to approve making of additional investment in Spunklane Media Private Limited
6.	Ordinary Resolution to approve making of investment in Quintillion Business Media Private Limited
7.	Special Resolution to approve granting of loan(s), provision of guarantee(s) etc. to Quintillion Business Media Private Limited under Section 185 of the Companies Act, 2013
8.	Ordinary Resolution to approve granting of loan(s) or provision of guarantee(s) etc. to Quintillion Business Media Private Limited under Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED

(Formerly known as Gaurav Mercantiles Limited)

Registered Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 Tel: 011 45142374

Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel: 0120 4751818

Website: www.quintdigitalmedia.com, **email:** cs@thequint.com, **CIN:** L74110DL1985PLC373314



9.	Ordinary Resolution to approve making investment in Quintype Technologies India Private Limited
10.	Special Resolution to approve granting of loan(s), provision of guarantee(s) etc. to Quintype Technologies India Private Limited under Section 185 of the Companies Act, 2013
11.	Ordinary Resolution to approve granting of loan(s), provision of guarantee(s) etc. to Quintype Technologies India Private Limited under Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
12.	Ordinary Resolution to approve lease agreement between Quintillion Media Private Limited and Mr. Mohan Lal Jain
13.	Ordinary Resolution to approve lease agreement between Quintillion Business Media Private Limited and Mr. Mohan Lal Jain

The above information will also be available on the website of the Company (i.e. www.quintdigitalmedia.com).

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely

For Quint Digital Media Limited

QUINT DIGITAL MEDIA LTD.

Company Secretary

Tarun Belwal

Company Secretary & Compliance Officer

M. No. A39190

QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED

(Formerly known as Gaurav Mercantiles Limited)

Registered Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 Tel: 011 45142374

Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel: 0120 4751818

Website: www.quintdigitalmedia.com, email: cs@thequint.com, CIN: L74110DL1985PLC373314

Divine Vidyt Limited - In Liquidation
Regd. Off.: Block D, 199, Regent Estate, 179/14/139, Rajapur Road, Kolkata-700 092, West Bengal

E-Auction
Sale of Corporate Debtor as a Going Concern under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of E-Auction: 20th December, 2021 at 11:00 AM to 02:00PM
(With unlimited extension of 10 minutes each)

Sale Notice
The Notice is hereby given for Sale of M/s Divine Vidyt Limited - In Liquidation (Corporate Debtor) as a Going Concern including all the assets forming part of Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble NCLT Kolkata Bench under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the regulations made thereunder.

Asset	Reserve Price	EMD Amount
Sale of Corporate Debtor as a Going Concern along with all assets including Land & Building, Plant & Machinery and Securities & Financial Assets.	Rs 27.40 Crores	Rs 2.74 Crores

The sale shall be subject to the Terms and Conditions prescribed in the "E-Auction Process Document" available at <https://nclt.auctiontiger.net> and to the following conditions:

- It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. Liquidator of M/s Divine Vidyt Limited reserves the right to suspend/abandon/cancel/extend or modify process terms and/or reject or disqualify any prospective bidder/bid/offer at any stage of the e-auction process without assigning any reason and without any liability.
- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "NO RECOURSE" basis through approved service provider, M/s. e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger).
- The Eligibility Criteria for the Participants are mentioned in the Process Documents. The Bid Documents details and EMD payment details should reach the office of the Liquidator physically or by E-mail at the address given below before 06:00 PM on 17th December, 2021.
- Any modification in timelines and/or in the "e-auction process document" including terms and conditions will be notified in the website of the Corporate Debtor i.e. www.divinevidyt.in.
- For any query, contact Mr. Rajesh Kumar Agrawal, mob:- 9830201612, mail id: rcp.dvl@gmail.com or Contact: Mr. Praveen Kumar Thar 9722778828 - 079 6813 6654/65551; Email ID: praveen.thar@auctiontiger.net.

Rajesh Kumar Agrawal
Liquidator

Divine Vidyt Limited - In Liquidation
IBBI Regn No.: IBBI/IPA-001/IP-01023/2017-2018/11722
1, Ganesh Chandra Avenue, 3rd Floor, Room No-301, Kolkata- 700013
rcp.dvl@gmail.com / rajesh521@yahoo.com
Date: 01.12.2021
Place: Kolkata

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PPFAS MUTUAL FUND
There's only one right way!

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF DEBT SCHEME (i.e. PARAG PARIKH LIQUID FUND) OF PPFAS MUTUAL FUND

Potential Risk Class of the Debt Scheme of PPFAS Mutual Fund

As per SEBI circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-II/DOF3/P/CIR/2021/573 dated June 7, 2021 ("the Circular"), for investors to take informed decision, they need to know:

(a) Current Risk levels. This is indicated by the Risk-o-Meter updated and disclosed inter alia in monthly portfolios uploaded on website.

(b) Maximum interest and credit risk a debt scheme can take. This shall be indicated through a 9 cell Potential Risk Class ("PRC") Matrix in the SID / KIM with effect from December 1, 2021.

Accordingly, the PRC of the Debt Scheme of PPFAS Mutual Fund with effect from December 1, 2021 shall be as under:

Scheme Name	Type of Scheme - Existing	Type of Scheme - Revised	Potential Risk Class (PRC)			
			Potential	Risk Class		
Parag Parikh Liquid Fund	An open-ended Liquid Scheme	An Open ended Liquid scheme.	Credit Risk → Interest Rate Risk ↓ Relatively Low (Class I) Moderate (Class II) Relatively High (Class III)	Relatively Low (Class A)	Moderate (Class B)	Relatively High (Class C)
A Relatively Low Interest Rate Risk and Relatively low Credit Risk.				A-I		

Investors are further requested to note that PRC reflects the maximum risks (i.e., interest rate risk and credit risk) that the scheme can take. Unitholders are requested to note that any permanent change in the positioning of the scheme into a cell resulting in a risk (in terms of credit risk or duration risk) which is higher than the maximum risk specified for the chosen PRC cell, shall be considered as a fundamental attribute change of schemes. Further, in case of any permanent changes in the positioning of the scheme into a cell resulting in a risk (in terms of credit risk or duration risk) which is lower than the maximum risk specified for the chosen PRC cell, the AMC shall inform the unitholders.

However, the PRC value of a scheme could change temporarily due to price movements, rating changes, investment actions, etc. Any such temporary change in the PRC of a scheme to a higher risk scale for either credit risk or duration risk beyond the maximum risk specified for the chosen PRC cell shall be subject to rebalancing in terms of provisions specified in the SID of the scheme.

All the other provisions of the SID/KIM/addenda of the Scheme, except as specifically modified herein above remain unchanged.

This addendum forms an integral part of the SID / KIM of the above-mentioned Scheme of PPFAS Mutual Fund, as amended from time to time.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

For PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai
Date: December 1, 2021

Sd/-
Director

Name of Mutual Fund: PPFAS Mutual Fund

For more information please contact:
PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)
CIN No: - U65100MH2011PTC220623
Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA.
Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

POST DELISTING PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

CASTEX TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: [OLD MANESAR ROAD VILLAGE, NARSINGHPUR, MOHAMMADPUR, GURUGRAM, HARYANA, 123106 IN]
Tel: [+91-124-2373406]; Fax: [+91-124-2373028]; Email: clt.compliance@castextechnologies.com; Website: <https://www.amtek.com/ai/iph>
CIN: [L65921HR1983PLC033789]

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that, the Castex Technologies Limited ("Company") in furtherance of the public notice of the Company earlier issued on October 30, 2021, had applied for delisting of its equity shares from both the stock exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") & the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") pursuant to the resolution plan of the Company approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench vide order dated November 15, 2021 and all relevant provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 as amended from time to time and as replaced by Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (the "Delisting Regulations").

The NSE vide approval letter NSE/ENF/DELIST/APPL/2021-22/303 read with circular ref. no. 1365/2021 dated November 30, 2021 ("NSE Approval") and BSE vide its Notice no. 20211130-7 dated November 30, 2021 has approved the delisting of equity shares of the Company with effect from Tuesday, December 07, 2021. This public notice is being provided for information to all stakeholders of the Company, in terms of the requirements as mandated by NSE as per the NSE Approval.

REGISTRAR	LEGAL ADVISOR TO THE DELISTING
Beetal Financial and Computer Services Private Limited Unit: Castex Technologies Limited 99, Madangiri, B4, Local Shopping Centre, Near Dada Harshuk Das Mandir New Delhi DL-110092 IN Phone: 011-29961281-83 Fax: 011-29961284 Email: beetal@beetalfinancial.com Web Site: www.beetalfinancial.com	Kesar Dass B & Associates Address: 4, Mathura Road, Jangpura A, New Delhi-110014

For Castex Technologies Limited
Sd/-
Nishant Pritam Raj
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: ACS-64110

Place: New Delhi
Date: December 01, 2021

SBI
Networking & Communication Department, State Bank of India,
Global IT-Centre, Main Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614

CORRIGENDUM

Please refer to RFP No.SBI/GITC/NW&C/21-22/806 dated 18.11.2021 for procurement of Dedicated point to point (P2P) fiber links of State Bank of India. Corrigendum dated 02.12.2021 can be accessed under Procurement news at Bank's website <https://www.sbi.co.in> or <https://bank.sbi> or e-Procurement agency portal <https://etender.sbi/SBI/>
Place: Navi Mumbai Sd/- Deputy General Manager (Networking & Communication Dept.)
Date: 02.12.2021

SBI
Central Board Sect., 19th Floor, Corporate Centre,
State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021
Contact Number: 022- 22741980, Email id: centralboard@sbi.co.in

REQUEST FOR PROPOSAL

Ref: SBI/CBS/01 Dated: 30.11.2021
RFP for selection of consultant for the exercise of Performance Evaluation of the Central Board, Board Level Committees and Directors. For details, please visit procurement news at <https://bank.sbi>, <https://www.sbi.co.in>
Last date and time for submission of bid documents including Technical and Commercial Proposal: 15.12.2021 up to 2:30PM
Place: Mumbai GM & Secretary
Date: 02.12.2021 Central Board

QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED
(Formerly known as Gaurav Mercantiles Limited)

Registered Office: 403 Prabhakar Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi - 110008 | Tel. No.: 011 45142374
Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida - 201301
Tel. No.: 0120 4751818 | Website: www.quintdigitalmedia.com | Email: cs@thequint.com
CIN: L74110DL1985PLC373314

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/ 2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/ 2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/ 2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") in view of COVID-19 ("MCA Circulars"), the Company is seeking consent of its shareholders for the proposed resolution as set-out hereinbelow, through postal ballot ("Postal Ballot") by way of voting through electronic means ("E-voting").

The Company has completed the dispatch of the Notice for Postal Ballot along with explanatory statement ("Postal Ballot Notice") on December 1, 2021 to all the Members whose name appears on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on November 26, 2021 ("Cut-off Date").

The Postal Ballot Notice has been sent through electronic mail to all the shareholders whose email addresses are registered in the records of depository participants. In terms of compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice and pre-paid business envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot and members are required to communicate their assent or dissent through the E-voting system only.

Following matters are being put for approval under the said Postal Ballot Notice sent to the members, through E-voting only:

Item No.	Description of the Resolution
1.	Special Resolution to approve appointment of Ms. Abha Kapoor (DIN: 01277168) as an Independent Woman Director
2.	Special Resolution to approve making investment(s) and / or providing loan(s) and giving guarantee(s) in excess of the limits prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013
3.	Ordinary Resolution to approve acquisition of 47.92% stake in Spunklane Media Private Limited
4.	Ordinary Resolution to approve acquisition of 100% stake of Quintillion Media Private Limited
5.	Ordinary Resolution to approve making of additional investment in Spunklane Media Private Limited
6.	Ordinary Resolution to approve making of investment in Quintillion Business Media Private Limited
7.	Special Resolution to approve granting of loan(s), provision of guarantee(s) etc. to Quintillion Business Media Private Limited under Section 185 of the Companies Act, 2013
8.	Ordinary Resolution to approve granting of loan(s) or provision of guarantee(s) etc. to Quintillion Business Media Private Limited under Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
9.	Ordinary Resolution to approve making investment in Quintype Technologies India Private Limited
10.	Special Resolution to approve granting of loan(s), provision of guarantee(s) etc. to Quintype Technologies India Private Limited under Section 185 of the Companies Act, 2013
11.	Ordinary Resolution to approve granting of loan(s), provision of guarantee(s) etc. to Quintype Technologies India Private Limited under Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
12.	Ordinary Resolution to approve lease agreement between Quintillion Media Private Limited and Mr. Mohan Lal Jain
13.	Ordinary Resolution to approve lease agreement between Quintillion Business Media Private Limited and Mr. Mohan Lal Jain

The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") for the purpose of providing E-voting facility and members are requested to cast their votes electronically only in terms of MCA Circulars.

In light of the MCA Circulars, members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get their email registered by following the registration procedure provided under the Postal Ballot Notice. Upon successful registration or updating of the email address, the member would get soft copy of the notice and the procedure for E-voting along with the User ID and the Password to enable E-voting for this Postal Ballot.

The E-voting period shall commence from **Thursday, December 2, 2021 (9:00 A.M.)** and will end on **Friday, December 31, 2021 (5:00 P.M.)**. During this period, the members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, may cast their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasishit, Practicing Company Secretary and Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, having CP No. 13700, as the scrutiner ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report after completion of the scrutiny and the results of the Postal Ballot will be posted on the Company's website www.quintdigitalmedia.com, besides communicating to the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed on or before **January 2, 2022**.

Members whose name appears on the Register of Members / List of Beneficial Owner as on **November 26, 2021** will be considered for the purpose of voting. A person who is not a member as on **November 26, 2021** should treat this notice for information purpose only.

Any Member who does not receive the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may send an email to cs@thequint.com or subhashdingreja@skynilneta.com. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.quintdigitalmedia.com.

The results of the Postal Ballot shall be declared by Chairman on or before **Sunday, January 2, 2022**, and shall be intimated to the stock exchanges on which the shares of company are listed. Also, the results will be posted on the Company's website www.quintdigitalmedia.com.

In case of any queries or issues regarding E-voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact Mr. Subhash Dingreja, Skyline Financial Services Pvt. Ltd., at A-505, Dattani Plaza, Andheri Kuria Road, Safed Pool, Andheri - East, Mumbai, Maharashtra - 400072 at his email address: subhashdingreja@skynilneta.com or Contact No. 022 28511022 / 49721245.

By order of the Board of Directors
For Quint Digital Media Limited
Sd/-
Tarun Belwal
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A39190

Place: Noida
Date: December 1, 2021

Bombay Rayon Fashions Limited

CIN: L17120MH1992PLC066880
Regd. Office: 3rd Floor, DLH Mangal Murti Building, Linking Road, Santacruz (West) 400054;
Tel.: +91 22 61068800, Fax: +91 22 61068830, E-mail ID: mail@bombayrayon.com, Website: www.bombayrayon.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

Sr. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total Income from operations (Net)	29.64	111.95	108.77	487.96	29.64	89.89	108.77	488.49
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(143.19)	(607.93)	(609.98)	(2,498.76)	(143.33)	(638.86)	(610.12)	(2,498.76)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after Exceptional and/or Extraordinary Items)	323.75	(601.02)	(558.63)	(2,866.12)	402.95	(587.07)	(479.43)	(2,821.24)
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional and/or Extraordinary Items	380.01	(285.32)	(299.95)	(1,879.96)	574.57	(257.69)	(105.39)	(1,829.24)
5	Total comprehensive income for the period for (after tax) and other comprehensive income (after tax)	380.01	(284.17)	(299.95)	(1,878.81)	574.57	(257.69)	(98.14)	(1,828.09)
6	Equity share Capital (face Value of Rs.10/- each)	317.48	317.48	317.48	317.48	317.48	317.48	317.48	317.48
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves)			65.38	358.07			413.47	511.61
8	Earnings Per Share (of 10/- each) (Basic & Diluted)	11.97	(9.00)	(9.45)	(59.22)	18.10	(8.12)	(3.32)	(57.62)

Notes:
(a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the said "Financial Results" are available on the website of the Company at www.bombayrayon.com and on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.
(b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th November, 2021.
(c) The Company operates in a single segment of manufacture and sale of Textiles.

Place: Mumbai
Date: 30th November, 2021

For and on behalf of Board of Directors
Aman Agrawal
Chairman & Managing Director

L.G. BALAKRISHNAN & BROS LIMITED
Regd Office 6/16/13, Krishnarayapuram Road, Ganapathy Post, Coimbatore - 641 006
CIN: L29191T21956PLC000257
Website: www.lgb.co.in, Email: secretarial@lgb.co.in Tel: +91 0422 2532325

**NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND**

NOTICE is hereby given to the shareholders of L.G. Balakrishnan & Bros Limited ("the Company") that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Transfer and Refund) Rules, 2016, the Company is required to transfer all such shares in respect to which dividend has remained unpaid / unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the IEPF.

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares that are due for transfer to IEPF on its website under the Investor Relation section at www.lgb.co.in. Further, the Company has completed posting notice to the concerned shareholders pursuant to section 124(6) of the Act and Rules made thereunder, whose dividend remained unclaimed, at their address registered with the Company providing complete details of the shares, if not claimed will be transferred to IEPF.

For further details and for making a valid claim, for the unclaimed dividend lying with the Company, the shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years from the financial year 2014-2015 can write to the Company / Registrar and Transfer Agent on or before December 10, 2021 and sign as per the specimen signature registered with the Company at the registered office address mentioned above or to the Registrar and Transfer Agent at the following address: M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai 600 002, Tel. No. 044 - 28460390, e-mail: investor@cameoindia.com

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said section and Rules. Please also be informed that, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends by making an application to the IEPF authority online as prescribed under the Rules and the same are available at IEPF website www.iepf.gov.in

For L.G. Balakrishnan & Bros Limited
M. Lakshmi Kanth Joshi
General Manager (Legal) & Company Secretary

Coimbatore
01.12.2021

**FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF EVEREST
INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED**

RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of corporate debtor Everest International Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor 04/06/1996
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered RoC-Mumbai
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor U32200MH1996PTC099972
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor 45-Udyog Bhawan, Sonawala Road, Goregaon East, Mumbai, MH 400063, IN.
6	Order pronounced: 28/11/2021 Order intimated to the Interim Resolution Professional by Registrar NCLT Mumbai 01/12/2021
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process 30/05/2022 (Being 180 days from 01/12/2021 i.e. from the date of receipt of the order of the Interim Resolution Professional)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional Mr. Hemant Kumar Shah Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01936/2020-2021/13037
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board Address: Flat No: 401, Ambika Heights CHS Ltd, Plot 30/A, Sector 25, P.O. New Near Sea Woods Rly Station (East), Navi Mumbai, Maharashtra - 400706. Email ID: shakhemant@yahoo.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional Address: AAA Insolvency Professionals LLP, A301, BSEL, Teck Park, Sector- 30 A, Opposite Vashi Railway Station, Vashi, Mumbai City, Maharashtra - 400705 Email ID: everestinternational@aaainsolvency.com hemanthshah@aaainsolvency.com Phone No: 022-42667394
11	Last date for submission of claims 15/12/2021
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional Names of insolvency professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) NA
13	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at: Web Link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the Everest International Private Limited on 26.11.2021 (Order intimated to the Interim Resolution Professional by Registrar NCLT Mumbai vide email on 01/12/2021).

The creditors of Everest International Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 15/12/2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 02/12/2021
Place : Mumbai
Mr. Hemant Kumar Shah
Insolvency Professional
AAA Insolvency Professionals LLP
Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P-01936/2020-2021/13037

ESSAR

HAZIRA CARGO TERMINALS LIMITED
Regd. Office: Salaya Administrative Building, 44 KM, P. O. Box 7, Taluka Khambhalia, District Dev Bhoomi Dwarika, Jamnagar, Gujarat 361305 IN
Tel.: +91-22-66601190 • Email: epi.secretarial@essarports.co.in • Web: www.essarports.com
CIN: U65100GJ1993PLC019238

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Eighth Annual General Meeting (the Meeting) of Hazira Cargo Terminals Limited will be held on Friday, December 24, 2021 at 11.00 a.m. IST through video conferencing/other audio

